

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2564]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2014/अग्रहायण 26, 1936

No. 2564]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2014/AGRAHAYANA 26, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3200(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 679(अ), तारीख 05.03.14, 332(अ) तारीख 24.02.12 & 2315(अ), तारीख 27.09.14 द्वारा; उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा केरल राज्य में कोचि-कोट्टनाड-बेगलुरु/मंगलौर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत अस्वीकृत कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनों बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइनों बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनों बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

राज्य : केरल

जिला	तालुका	गांव	सर्व. न.	आर.ओ.यू अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल हेक्टर-आर-स्कव.मीटर
1	2	3	4	5
पालक्काट	पालक्काट	मन्नूर ब्लॉक - 9	409/11	0 - 15 - 00
			409/13	0 - 06 - 50
			420/4	0 - 04 - 50
			403/4	0 - 02 - 50
			403/5	0 - 02 - 50
			400/1	0 - 13 - 00
			400/6	0 - 02 - 03
			400/7	0 - 00 - 40
			400/8	0 - 20 - 00
			400/9	0 - 00 - 44
			400/10	0 - 00 - 55
			401/1	0 - 10 - 50
			398/1	0 - 35 - 00
			398/2	0 - 09 - 75
			429	0 - 05 - 00
			428	0 - 04 - 00
			कुल	1 - 31 - 67

पालक्काट	पालक्काट	मन्नूर ब्लॉक - 8	449/1	0 - 30 - 00
			449/2	0 - 04 - 30
			449/3	0 - 02 - 25
			453	0 - 04 - 20
			451/1	0 - 06 - 50
			451/2	0 - 02 - 10
			451/5	0 - 00 - 20
			451/6	0 - 04 - 00
			451/7	0 - 05 - 00
			451/8	0 - 00 - 20
			454/3	0 - 24 - 00
			456/1	0 - 20 - 00
			कुल	1 - 02 - 75

कासरगोड	होसदुर्ग	84-पनयाल	187	0 - 66 - 07
			188/2	0 - 01 - 77
			188/5	0 - 14 - 48
			188/7	0 - 02 - 10
			188/6	0 - 00 - 27
			188/3	0 - 26 - 78
			676/2A3	0 - 09 - 31
			676/2A1	0 - 04 - 22
			676/2A2	0 - 08 - 73
			676/2A1	0 - 49 - 86
			177/2	0 - 18 - 04
			177/4	0 - 03 - 10
			177/1A	0 - 08 - 66
			176/1	0 - 26 - 79
			179/3	0 - 15 - 93
			179/2	0 - 13 - 54
			179/1A	0 - 00 - 19
			173/1B	0 - 09 - 50
			173/1A2	0 - 29 - 42
			172/9	0 - 02 - 70
			172/7	0 - 11 - 36

			172/6	0 - 03 - 33
			113	0 - 37 - 02
			114/3	0 - 14 - 15
			114	0 - 03 - 04
			111/1A	0 - 00 - 13
			674	0 - 06 - 37
			115/5	0 - 13 - 09
			115/4	0 - 11 - 63
			116/7	0 - 12 - 84
			75	0 - 17 - 74
			75/6	0 - 10 - 51
			75/5	0 - 09 - 96
			75/3	0 - 00 - 08
			74/6	0 - 10 - 16
			74/5	0 - 10 - 55
			74/4	0 - 00 - 05
			74/2	0 - 02 - 35
			74	0 - 24 - 28
			71/1B2	0 - 09 - 43
			71/1A	0 - 11 - 46
			16/1	0 - 25 - 09
			16/2	0 - 08 - 74
			16	0 - 01 - 69
			15	0 - 21 - 23
			11/1D	0 - 12 - 26
			11/1C	0 - 04 - 78
			11/2	0 - 05 - 86
			11/1B	0 - 02 - 98
			11	0 - 13 - 55
			3/5	0 - 01 - 51
			3/4	0 - 13 - 19
			3/2	0 - 03 - 95
			3/1B	0 - 01 - 09
			4/3	0 - 17 - 12

			4/2	0 - 09 - 10
			4/1	0 - 05 - 19
			5/1	0 - 11 - 45
			5/2	0 - 02 - 58
			5/3	0 - 08 - 63
			5/4	0 - 08 - 46
			कुल	7 - 09 - 44

कासरगोड	कासरगोड	चेंगला	292	0 - 04 - 69
			291	0 - 25 - 24
			289	0 - 50 - 18
			275	0 - 19 - 95
			276	0 - 01 - 67
			285	0 - 44 - 37
			284	0 - 37 - 76
			283	0 - 30 - 41
			282	0 - 09 - 01
			कुल	2 - 23 - 28

कासरगोड	कासरगोड	तेक्किल	201/1	0 - 33 - 77
			410/1B	0 - 13 - 06
			410	0 - 15 - 76
			206/1	0 - 15 - 15
			206/2	0 - 06 - 00
			210	0 - 04 - 96
			218/1A	0 - 23 - 52
			219/2A	0 - 25 - 25
			374/2	0 - 00 - 29
			231	0 - 33 - 56
			372/1A	0 - 13 - 13
			372/1B	0 - 05 - 06
			232	0 - 01 - 00
			371/2	0 - 01 - 32
			371/3C	0 - 01 - 52
			371/4	0 - 03 - 07

			371/5	0 - 01 - 60
			371/6	0 - 12 - 03
			240	0 - 31 - 24
			241	0 - 19 - 20
			242	0 - 61 - 91
			248	0 - 74 - 21
			249	0 - 56 - 04
			250	0 - 21 - 37
			301	0 - 06 - 45
			299	0 - 40 - 49
			409	0 - 02 - 21
			297	0 - 82 - 85
			282/1	0 - 01 - 61
			282/2B	0 - 10 - 05
			282	0 - 07 - 26
			283/1	0 - 11 - 33
			284/1	0 - 14 - 49
			284/3	0 - 07 - 64
			284/4	0 - 03 - 74
			284	0 - 17 - 78
			कुल	6 - 79 - 92

कासरगोड	कासरगोड	मूलियार	144	0 - 02 - 52
			142	0 - 32 - 70
			143	0 - 12 - 11
			141	0 - 45 - 12
			140	0 - 15 - 11
			38	0 - 00 - 17
			33	0 - 01 - 76
			34	0 - 28 - 94
			37	0 - 22 - 26

			37/1	0 - 01 - 05
			37/3	0 - 02 - 52
			36	0 - 07 - 06
			29	0 - 43 - 65
			29/5	0 - 00 - 04
			18	0 - 20 - 82
			19	0 - 25 - 92
			19/2B4	0 - 00 - 62
			19/2B1	0 - 11 - 47
			21	0 - 21 - 13
			21/2	0 - 02 - 57
			17	0 - 09 - 79
			7/2	0 - 08 - 89
			6	0 - 16 - 30
			2	0 - 05 - 52
			4	0 - 25 - 79
			3	0 - 14 - 00
			कुल	3 - 77 - 83

कासरगोड	कासरगोड	पाडी	300	0 - 08 - 32
			299	0 - 07 - 01
			298	0 - 04 - 09
			111	0 - 17 - 15
			297	0 - 15 - 62
			289	0 - 36 - 02
			290	0 - 41 - 76
			31	0 - 29 - 57
			29	0 - 16 - 45
			30	0 - 26 - 82

			288	0 - 28 - 85
			5	0 - 22 - 40
			32	0 - 21 - 57
			6	0 - 22 - 94
			138	0 - 29 - 93
			137	0 - 32 - 96
			24	0 - 28 - 61
			8	0 - 89 - 63
			122	0 - 38 - 35
			140	0 - 10 - 25
			118	0 - 00 - 11
			22	0 - 02 - 56
			141	0 - 10 - 50
			119	0 - 60 - 49
			287	0 - 62 - 30
			23	0 - 16 - 43
			141	0 - 16 - 12
			148	0 - 13 - 86
			147	0 - 07 - 76
			कुल	7 - 18 - 43

कासरगोड	कासरगोड	मुद्रातोडी	130/2	0 - 48 - 19
			129/1	0 - 15 - 35
			116/3	0 - 16 - 79
			116/2	0 - 23 - 87
			116/1	0 - 10 - 05
			115/4	0 - 00 - 11
			115/1	0 - 17 - 47
			114	0 - 02 - 56
			113/2B	0 - 26 - 72

			113/1B3	0 - 00 - 13
			145/2	0 - 42 - 93
			145/1	0 - 00 - 16
			144/9	0 - 11 - 42
			144/8	0 - 01 - 34
			144/7	0 - 09 - 15
			144/6	0 - 02 - 63
			144/3	0 - 03 - 92
			142/4	0 - 00 - 47
			142/3	0 - 84 - 34
			141/1	0 - 22 - 89
			140/2	0 - 00 - 45
			140/1	0 - 05 - 71
			162/1	0 - 02 - 10
			162/4B	0 - 17 - 59
			162/4A	0 - 07 - 33
			22	0 - 00 - 19
			21	0 - 00 - 02
			343	0 - 03 - 88
			343/1	0 - 15 - 53
			343/2	0 - 21 - 30
			124	0 - 00 - 27
			125	0 - 09 - 82
			125/1C	0 - 02 - 04
			125/1B	0 - 06 - 27
			125/2	0 - 02 - 24
			125/1A	0 - 16 - 22
			128	0 - 05 - 30
			128/3	0 - 07 - 65
			128/4	0 - 01 - 73
			129/5	0 - 00 - 12
			130/1	0 - 06 - 68
			130/2	0 - 39 - 26
			कुल	5 - 12 - 19

[सं. एल-14014 / 37 / 14-जी पी]

एस. पी. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2014

S.O. 3200(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 679 (E) dated 05.03.14, 332(E) dated 24.02.12 & 2315(E) dated 27.09.12; issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Kochi – Kootanad – Bengaluru/Mangalore pipeline in the State of Kerala by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil/Taluk	Village	Survey No.	Area to be acquired for ROU
				Hect - Ares - Sq.Mtrs.
1	2	3	4	5
Palakkad	Palakkad	Mannur Block-9	409/11	0 - 15 - 00
			409/13	0 - 06 - 50
			420/4	0 - 04 - 50
			403/4	0 - 02 - 50
			403/5	0 - 02 - 50
			400/1	0 - 13 - 00
			400/6	0 - 02 - 03

			400/7	0 - 00 - 40
			400/8	0 - 20 - 00
			400/9	0 - 00 - 44
			400/10	0 - 00 - 55
			401/1	0 - 10 - 50
			398/1	0 - 35 - 00
			398/2	0 - 09 - 75
			429	0 - 05 - 00
			428	0 - 04 - 00
			Total	1 - 31 - 67
Palakkad	Palakkad	Mannur Block-8	449/1	0 - 30 - 00
			449/2	0 - 04 - 30
			449/3	0 - 02 - 25
			453	0 - 04 - 20
			451/1	0 - 06 - 50
			451/2	0 - 02 - 10
			451/5	0 - 00 - 20
			451/6	0 - 04 - 00
			451/7	0 - 05 - 00
			451/8	0 - 00 - 20
			454/3	0 - 24 - 00
			456/1	0 - 20 - 00
			Total	1 - 02 - 75

Kasaragod	Hosdurg	84-Panayal	187	0 - 66 - 07
			188/2	0 - 01 - 77
			188/5	0 - 14 - 48
			188/7	0 - 02 - 10
			188/6	0 - 00 - 27
			188/3	0 - 26 - 78
			676/2A3	0 - 09 - 31
			676/2A1	0 - 04 - 22
			676/2A2	0 - 08 - 73
			676/2A1	0 - 49 - 86
			177/2	0 - 18 - 04
			177/4	0 - 03 - 10
			177/1A	0 - 08 - 66
			176/1	0 - 26 - 79
			179/3	0 - 15 - 93
			179/2	0 - 13 - 54

			179/1A	0 - 00 - 19
			173/1B	0 - 09 - 50
			173/1A2	0 - 29 - 42
			172/9	0 - 02 - 70
			172/7	0 - 11 - 36
			172/6	0 - 03 - 33
			113	0 - 37 - 02
			114/3	0 - 14 - 15
			114	0 - 03 - 04
			111/1A	0 - 00 - 13
			674	0 - 06 - 37
			115/5	0 - 13 - 09
			115/4	0 - 11 - 63
			116/7	0 - 12 - 84
			75	0 - 17 - 74
			75/6	0 - 10 - 51
			75/5	0 - 09 - 96
			75/3	0 - 00 - 08
			74/6	0 - 10 - 16
			74/5	0 - 10 - 55
			74/4	0 - 00 - 05
			74/2	0 - 02 - 35
			74	0 - 24 - 28
			71/1B2	0 - 09 - 43
			71/1A	0 - 11 - 46
			16/1	0 - 25 - 09
			16/2	0 - 08 - 74
			16	0 - 01 - 69
			15	0 - 21 - 23
			11/1D	0 - 12 - 26
			11/1C	0 - 04 - 78
			11/2	0 - 05 - 86
			11/1B	0 - 02 - 98
			11	0 - 13 - 55
			3/5	0 - 01 - 51
			3/4	0 - 13 - 19
			3/2	0 - 03 - 95
			3/1B	0 - 01 - 09
			4/3	0 - 17 - 12

			4/2	0 - 09 - 10
			4/1	0 - 05 - 19
			5/1	0 - 11 - 45
			5/2	0 - 02 - 58
			5/3	0 - 08 - 63
			5/4	0 - 08 - 46
			TOTAL	7 - 09 - 44

Kasaragod	Kasaragod	Chengala	292	0 - 04 - 69
			291	0 - 25 - 24
			289	0 - 50 - 18
			275	0 - 19 - 95
			276	0 - 01 - 67
			285	0 - 44 - 37
			284	0 - 37 - 76
			283	0 - 30 - 41
			282	0 - 09 - 01
			Total	2 - 23 - 28

Kasaragod	Kasaragod	Thekkil	201/1	0 - 33 - 77
			410/1B	0 - 13 - 06
			410	0 - 15 - 76
			206/1	0 - 15 - 15
			206/2	0 - 06 - 00
			210	0 - 04 - 96
			218/1A	0 - 23 - 52
			219/2A	0 - 25 - 25
			374/2	0 - 00 - 29
			231	0 - 33 - 56
			372/1A	0 - 13 - 13
			372/1B	0 - 05 - 06
			232	0 - 01 - 00
			371/2	0 - 01 - 32
			371/3C	0 - 01 - 52
			371/4	0 - 03 - 07
			371/5	0 - 01 - 60

			371/6	0 - 12 - 03
			240	0 - 31 - 24
			241	0 - 19 - 20
			242	0 - 61 - 91
			248	0 - 74 - 21
			249	0 - 56 - 04
			250	0 - 21 - 37
			301	0 - 06 - 45
			299	0 - 40 - 49
			409	0 - 02 - 21
			297	0 - 82 - 85
			282/1	0 - 01 - 61
			282/2B	0 - 10 - 05
			282	0 - 07 - 26
			283/1	0 - 11 - 33
			284/1	0 - 14 - 49
			284/3	0 - 07 - 64
			284/4	0 - 03 - 74
			284	0 - 17 - 78
			Total	6 - 79 - 92

Kasaragod	Kasaragod	Muliyar	144	0 - 02 - 52
			142	0 - 32 - 70
			143	0 - 12 - 11
			141	0 - 45 - 12
			140	0 - 15 - 11
			38	0 - 00 - 17
			33	0 - 01 - 76
			34	0 - 28 - 94
			37	0 - 22 - 26
			37/1	0 - 01 - 05
			37/3	0 - 02 - 52
			36	0 - 07 - 06
			29	0 - 43 - 65
			29/5	0 - 00 - 04

			18	0 - 20 - 82
			19	0 - 25 - 92
			19/2B4	0 - 00 - 62
			19/2B1	0 - 11 - 47
			21	0 - 21 - 13
			21/2	0 - 02 - 57
			17	0 - 09 - 79
			7/2	0 - 08 - 89
			6	0 - 16 - 30
			2	0 - 05 - 52
			4	0 - 25 - 79
			3	0 - 14 - 00
			Total	3 - 77 - 83

Kasaragod	Kasaragod	Padi	300	0 - 08 - 32
			299	0 - 07 - 01
			298	0 - 04 - 09
			111	0 - 17 - 15
			297	0 - 15 - 62
			289	0 - 36 - 02
			290	0 - 41 - 76
			31	0 - 29 - 57
			29	0 - 16 - 45
			30	0 - 26 - 82
			288	0 - 28 - 85
			5	0 - 22 - 40
			32	0 - 21 - 57
			6	0 - 22 - 94
			138	0 - 29 - 93
			137	0 - 32 - 96
			24	0 - 28 - 61
			8	0 - 89 - 63
			122	0 - 38 - 35
			140	0 - 10 - 25
			118	0 - 00 - 11

			22	0 - 02 - 56
			141	0 - 10 - 50
			119	0 - 60 - 49
			287	0 - 62 - 30
			23	0 - 16 - 43
			141	0 - 16 - 12
			148	0 - 13 - 86
			147	0 - 07 - 76
			Total	7 - 18 - 43

Kasaragod	Kasaragod	Muttathodi	130/2	0 - 48 - 19
			129/1	0 - 15 - 35
			116/3	0 - 16 - 79
			116/2	0 - 23 - 87
			116/1	0 - 10 - 05
			115/4	0 - 00 - 11
			115/1	0 - 17 - 47
			114	0 - 02 - 56
			113/2B	0 - 26 - 72
			113/1B3	0 - 00 - 13
			145/2	0 - 42 - 93
			145/1	0 - 00 - 16
			144/9	0 - 11 - 42
			144/8	0 - 01 - 34
			144/7	0 - 09 - 15
			144/6	0 - 02 - 63
			144/3	0 - 03 - 92
			142/4	0 - 00 - 47
			142/3	0 - 84 - 34
			141/1	0 - 22 - 89
			140/2	0 - 00 - 45
			140/1	0 - 05 - 71
			162/1	0 - 02 - 10
			162/4B	0 - 17 - 59
			162/4A	0 - 07 - 33

			22	0 - 00 - 19
			21	0 - 00 - 02
			343	0 - 03 - 88
			343/1	0 - 15 - 53
			343/2	0 - 21 - 30
			124	0 - 00 - 27
			125	0 - 09 - 82
			125/1C	0 - 02 - 04
			125/1B	0 - 06 - 27
			125/2	0 - 02 - 24
			125/1A	0 - 16 - 22
			128	0 - 05 - 30
			128/3	0 - 07 - 65
			128/4	0 - 01 - 73
			129/5	0 - 00 - 12
			130/1	0 - 06 - 68
			130/2	0 - 39 - 26
			Total	5 - 12 - 19

[No. L-14014/37/14-G.P.]

S. P. AGGARWAL, Under Secy.